



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2008/पौष 3, 1930

No. 447]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2008/PAUSA 3, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2008

**‘6.20 प्रतिशत उर्वरक कम्पनी’ के भारत सरकार विशेष बाँड, 2022’ का निर्गम**

फा. सं. 4(19)-डब्ल्यू एंड एम/2008.—भारत सरकार एतद्वारा 24 दिसम्बर, 2008 को कुल 4,000 करोड़ रुपए (अंकित) की कुल राशि के लिए ‘6.20 प्रतिशत उर्वरक कम्पनी’ के भारत सरकार विशेष बाँड, 2022’ (जिन्हें इसके बाद संक्षिप्त रूप में “विशेष बाँड” के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) का निर्गम अधिसूचित करती है।

## 1. विशेष बांडों में अभिदान की पात्रता और अभिदान की सीमा

यहां अनुबंध-I में यथा उल्लिखित कंपनियां ही विशेष बांडों में अभिदान की पात्र होंगी और विशेष बांडों में उनका अभिदान उक्त अनुबंध-I में उनके नाम के सामने दर्शाई गई राशि की सीमा तक सीमित होगा। उक्त अनुबंध में यथा उल्लिखित कम्पनियों को छोड़कर कोई बैंक, कंपनी, निगम अथवा अन्य कोई निकाय सहित कोई अन्य व्यक्ति विशेष बांडों में अभिदान के लिए पात्र नहीं होगा।

## 2. मूल्य

विशेष बांड पात्र कंपनियों द्वारा किए गए आवेदन के अनुसार राशि के लिए सममूल्य पर किए गए आवेदन पर जारी किए जाएंगे। विशेष बांड न्यूनतम 10,000 रुपए (अंकित) की राशि और उसके बाद 10,000 रुपए के गुणजों में जारी किए जाएंगे।

## 3. आवेदन पत्र

विशेष बांड पात्र कंपनियों से अनुबंध-II में दिए गए प्रपत्र के अनुसार आवेदन पर जारी किए जाएंगे।

#### 4. प्रतिभूति का स्वरूप

विशेष बांड स्टॉक के रूप में अर्थात् 'स्टॉक प्रमाण पत्रों' अथवा सहायक सामान्य खाता बही धारक के साथ धारित संघटक सहायक सामान्य खाता लेखा में क्रेडिट द्वारा जारी किए जाएंगे।

#### 5. कार्यकाल का प्रारम्भ और वापसी अदायगी की तारीख

विशेष बांडों का कार्यकाल 24 दिसम्बर, 2008 से शुरू होगा। विशेष बांडों पर ब्याज उनकी अवधि प्रारम्भ होने की तारीख से उपचित होगा। विशेष बांडों की वापसी अदायगी सममूल्य पर 24 दिसम्बर, 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी।

#### 6. ब्याज

विशेष बांडों पर '6.20 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज का हिसाब विशेष बांडों की अवधि प्रारंभ होने की तारीख से लगाया जाएगा और यह भुगतान विशेष बांडों की परिपक्वता तक अर्द्धवार्षिक आधार पर 24 जून और 24 दिसम्बर को देय होगा।

विशेष बांडों पर ब्याज का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक के फोर्ट, मुम्बई के लोक ऋण कार्यालय में किया जाएगा। ब्याज का भुगतान ब्याज की राशि को निकटतम रूपए तक पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा।

#### 7. हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 4 के प्रावधानों के अधीन भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत विशेष बांड का नवीकरण, उप-विभाजन, समेकन, रूपान्तरण अथवा अंतरण किया जा सकता है।

(ii) इस अधिसूचना में ऊपर पैरा 1 में दिए गए कथन के बावजूद, अभिदानकर्ताओं द्वारा विशेष बांडों को बैंकों, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अन्तरिती भी उन्हें उसी तरीके से धारण तथा अंतरण करने का पात्र होगा।

#### 8. सांविधिक प्रावधान

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में जिसकी व्यवस्था इस अधिसूचना के तहत नहीं की गई है, विशेष बांड भारतीय प्रतिभूति अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उपबंधों के अंतर्गत नियंत्रित किए जाएंगे।

#### 9. कर कानून की प्रयोज्यता

विशेष बांडों में निवेश का मूल्य और उस पर देय ब्याज समय-समय पर लागू कर कानूनों के उपबंधों द्वारा शासित किए जाएंगे।

#### 10. बांडों की पात्रता

बैंकों और बीमा कंपनियों द्वारा विशेष बांडों में निवेश को उनकी सांविधिक अपेक्षाओं के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों में पात्र निवेश नहीं माना जाएगा। लेकिन, बीमा कंपनियों द्वारा ऐसे निवेश को बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (निवेश) विनियम, 2000 के तहत यथा परिभाषित "अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां" की श्रेणी के तहत निवेश

माना जाएगा। इसके अलावा, भविष्य निधियों, उपादान निधियों, अधिवर्षिता निधियों आदि द्वारा विशेष बांडों में निवेश को वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक आदेश के अधीन पात्र निवेश के रूप में माना जाएगा।

#### 11. रिपो के लिए पात्रता

विशेष बाण्ड हस्तान्तरणीय होंगे और बाजार के तत्काल वायदा लेन-देन (रिपो) के लिए पात्र होंगे।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,  
वि. शिवसुब्रमणियन, निदेशक

#### अनुबंध-I

पात्र कंपनियों की सूची तथा '6.20 प्रतिशत उर्वरक कंपनियों के भारत सरकार विशेष बांड, 2022' का आवंटन

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	राशि (रुपए में)
1.	यम्बल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लि०	104590000
2.	गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कं० लि०	770000
3.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लि०	2582840000
4.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स को-ऑपरेटिव लि०	21063280000
5.	मंगलौर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	304740000
6.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	429290000
7.	टाटा केमिकल्स लि०	1234710000
8.	जोरी इंडस्ट्रीज लि०	882420000
9.	कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०	3893120000
10.	दीपक फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि०	130820000
11.	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावनकोर लि०	19250000
12.	हिन्डालको इंडस्ट्रीज लि० (यूनिट: बिड़ला कॉपर)	286420000
13.	इंडियन पोटाश लि०	7905640000
14.	मोजाइक इंडिया प्राइवेट लि०	132930000
15.	पारादीप फास्फेट्स लि०	1028510000
16.	तुंगभद्रा फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कं० लि०	670000
	<b>जोड़</b>	<b>40000000000</b>

**अनुबंध-II**

स्थान:

तिथि:

क्षेत्रीय निदेशक  
लोक ऋण कार्यालय,  
भारतीय रिजर्व बैंक,  
मुम्बई 400 001

विषय:- '6.20 प्रतिशत उर्वरक कम्पनी' के भारत सरकार विशेष बांड, 2022' ।

महोदय,

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना एफ. संख्या 4(19)डब्ल्यूएंडएम/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2008 की शर्तों के अंतर्गत हम ..... रुपए की समग्र राशि के शीर्षकांकित बांडों में अभिदान करने के पात्र हैं।

हमें विशेष बांडों को शासित करने वाली शर्तें स्वीकार्य हैं और हम आपसे हमारे पक्ष में बांडों को जारी करने का अनुरोध करते हैं।

भवदीय,

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय मुहर/स्टाम्प

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economic Affairs)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th December, 2008

**Issue of '6.20 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2022'**

**F. No. 4(19)-W & M/2008.**—Government of India hereby notifies the issue of '6.20 per cent Fertilizer Companies Government of India Special Bonds, 2022' (hereinafter briefly described as "Special Bonds"), for an aggregate amount of Rs. 4,000 crore (nominal) on December 24, 2008.

**1. Eligibility for making subscription to the Special Bonds and limits of subscription.**

The companies as referred to in the Annex I hereto shall be eligible to subscribe to the Special Bonds and their subscription to the Special Bonds shall be limited to the extent of the amount, as shown against their respective names in the said Annex I. No other person including any bank, company, corporation or any other body, except the companies as referred to in the aforesaid Annex, shall be eligible to subscribe to the Special Bonds.

**2. Price**

The Special Bonds shall be issued on application at par for the amounts as per the application made by the eligible companies. The Special Bonds will be issued for a minimum amount of Rs. 10,000 (Nominal) and in multiples of Rs. 10,000 thereafter.

**3. Application**

The Special Bonds shall be issued on application as per proforma in Annex II, from the eligible companies.

**4. Form of Security**

The Special Bonds will be issued in the form of stock i.e. 'Stock Certificates' or by credit to Constituent Subsidiary General Ledger account maintained by a Subsidiary General Ledger account holder.

**5. Commencement of tenure and date of repayment**

The tenure of Special Bonds will commence from December 24, 2008. Interest on the Special Bonds will accrue from the date of commencement of tenure. The Special Bonds will be repaid at par on December 24, 2022 at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Mumbai.

**6. Interest**

The Special Bonds will bear interest at the rate of 6.20 per cent per annum. Interest will be reckoned from the date of commencement of tenure of the Special Bonds and will be payable half yearly on June 24 and December 24 till maturity of the Special Bonds.

Interest on the Special Bonds will be payable at Public Debt Office, Reserve Bank of India, Fort, Mumbai. Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee.

**7. Transferability**

(i) Subject to the provisions of paragraph 4 of the notification, the Special Bonds can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred by the holder in accordance with the provisions of the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

5013 41/08-2

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 1 hereinabove, there will be no restriction on the transfer of the Special Bonds by the subscribers in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

### 8. Statutory Provisions

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification, the Special Bonds shall be governed by the Government Securities Act, 2006 and Government Securities Regulations, 2007 framed thereunder.

### 9. Applicability of Tax Law

The value of the investment in the Special Bonds and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

### 10. Eligibility of Bonds

The investment in the Special Bonds by the banks and insurance companies will not be reckoned as an 'eligible investment in Government securities for their statutory requirements. However, such investment by the insurance companies will be eligible to be reckoned as investment under "other Approved Securities" category as defined under Insurance Regulatory and Development Authority (Investment) Regulations, 2000. Further, the investment by the Provident Funds, Gratuity Funds, Superannuation Funds, etc. in the Special Bonds will be treated as an eligible investment under the administrative order of the Ministry of Finance.

### 11. Eligibility for Repo

The Special Bonds will be transferable and eligible for market ready forward transactions (Repo).

By Order of the President of India,  
V. SIVASUBRAMANIAN, Director

### ANNEX I

List of eligible Companies and allocation of '6.20 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2022'.

Sl. No.	Name of the Company	Amount in Rupees
1	Chambal Fertilizers & Chemicals Limited	104590000
2	Gujarat Narmada Valley Fertilizers Company Limited	770000
3	Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited	2582840000
4	Indian Farmers Fertilizer Co-operative Limited	21063280000
5	Mangalore Chemicals & Fertilizers Limited	304740000
6	Rashtriya Chemicals & Fertilizers Limited	429290000
7	Tata Chemicals Limited	1234710000
8	Zuari Industries Limited	882420000
9	Coromandel Fertilizers Limited	3893120000
10	Deepak Fertilizers & Petrochemicals Corporation Limited	130820000
11	Fertilizer and Chemicals Travancore Limited	19250000

12	Hindalco Industries Limited (Unit: Birla Copper)	286420000
13	Indian Potash Limited	7905640000
14	Mosaic India Private Limited	132930000
15	Paradeep Phosphates Limited	1028510000
16	Tungbhadra Fertilizers & Chemicals Company Limited	670000
	<b>Total</b>	<b>40000000000</b>

**ANNEX II****Place:****Date:**

The Regional Director,  
Public Debt Office,  
Reserve Bank of India,  
Mumbai-400 001

**Subject: '6.20 per cent Fertilizer Companies' Government of India Special Bonds, 2022'.**

Sir,

In terms of Government of India, Ministry of Finance, Notification F.No.4 (19) W&M/2008 dated December 24, 2008, we are eligible to subscribe to the captioned Bonds for an aggregate amount of Rs. \_\_\_\_\_

We accept the terms and conditions governing the Special Bonds and request you to issue the bonds in our favour.

Yours faithfully,

Signature:  
Name:  
Designation:  
Office Seal/Stamp